

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने COVID-19 की प्रतिक्रिया में एमरजेंसी की स्थिति होने की घोषणा की

ब्रैम्पटन, ओन्टारियो (24 मार्च, 2020) – आज, सिटी काउंसिल (City Council) के साथ परामर्श करने के बाद और सिटी की एमरजेंसी मैनेजमेंट टीम (Emergency Management Team) की सिफारिश पर, मेयर पैट्रिक ब्राउन ने सिटी के [एमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान \(Emergency Management Plan\)](#) के अनुसार, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में एमरजेंसी की स्थिति होने (State of Emergency) की घोषणा की।

यह COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) को फैलने से रोकने में मदद के लिए, ओन्टारियो प्रांत (Province of Ontario) और रीजन ऑफ पील (Region of Peel) के प्रयासों से समर्थन में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस घोषणा से, COVID-19 के प्रभावों को रोकने में मदद के लिए हमारे द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों में लचीलेपन व गति में वृद्धि होगी, जिससे सिटी के एमरजेंसी प्रतिक्रिया संबंधी जारी प्रयासों में मदद मिलेगी।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन ट्रांज़िट (Brampton Transit), फायर एंड एमरजेंसी सर्विसिज (Fire and Emergency Services) और बाइ-लॉ (By-law) और एन्फोर्समेंट (Enforcement) सहित, रोज़ाना की जरूरी और महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करके जनता को सहयोग देना जारी रखेगी, जो पूरी सिटी में एमरजेंसी सेवा पहुंच को सुनिश्चित करता है।

सिटी, ब्रैम्पटन के निवासियों को सूचनाएं देते रहने के लिए प्रतिबद्ध है। यह COVID-19 के लिए सिटी की प्रतिक्रिया के बारे में ताज़ा जानकारी उपलब्ध होते ही निवासियों को वह जानकारी देना जारी रखेगी। अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं अथवा @CityBrampton को [Twitter](#), [Facebook](#) तथा [Instagram](#) पर फॉलो करें।

हवाले

“आज की घोषणा, COVID-19 के प्रभावों को रोकने में मदद के लिए हमारे द्वारा की जाने वाली कार्रवाईयों में लचीलेपन और गति में वृद्धि करके, सिटी के एमरजेंसी प्रतिक्रिया संबंधी जारी प्रयासों का समर्थन करती है। हम अपने समुदाय की सुरक्षा के हर आवश्यक कदम उठा रहे हैं। सिटी ऐसा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसमें हम सभी की जिम्मेदारी है, इसलिए कृपया इस समय घरों में ही रहें। सिटी के तौर पर हम साथ मिलकर इसका मुकाबला करेंगे।”

पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी के प्रशासन ने COVID-19 की प्रतिक्रिया में, 13 मार्च को स्तर 2 पर हमारे एमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान की शुरुआत की थी, जिसे 17 मार्च को स्तर 1 की मुख्य एमरजेंसी में बदल दिया गया था। आज की घोषणा, सिटी के स्टाफ को प्रभावी तौर पर और जल्दी से प्रतिक्रिया करने की अतिरिक्त स्फूर्ति प्रदान करती है। यह दर्शाती है कि सिटी इस मामले को और हमारे स्टाफ व जनता की सुरक्षा को कितनी गंभीरता से ले रही है।”

डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

लिंक

- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन सी.ओ.वी.आई.डी.-19 \(City of Brampton COVID-19\)](#)

- [पील पब्लिक हेल्थ – नोवल कोरोनावायरस \(सी.ओ.वी.आई.डी.-19\) \(Peel Public Health – Novel Coronavirus\) \(COVID-19\)](#)
- [प्रोविंस ऑफ ऑनटैरियो: मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ – नोवल कोरोनावायरस \(सी.ओ.वी.आई.डी.-19\) \(Province of Ontario: Ministry of Health – Novel Coronavirus\) \(COVID-19\)](#)

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca